



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1935 (श0)
(सं0 पटना 777) पटना, मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
04 जुलाई 2013

सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-04/2013/782—श्री सुमन कुमार, (आई0डी0-3590) सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए विभागीय कार्यों की उपेक्षा कर जिला के माध्यम से संपादित होने वाले कार्यों में संलग्न कर लेने के मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त श्री कुमार को अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लेने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुमन कुमार, सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन की अवधि में श्री सुमन कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना निर्धारित किया जाता है।
4. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 777-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>